



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 304]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 1979/श्रावण 2, 1901

No. 304]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 1979/SRAVANA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1979

का० प्रा० 422(प्र)/18प्र/आई० डी० प्रार० ए०/79.—केंद्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का धारा 18कक के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास के प्रादेश संख्या-का० प्रा० 112(प्र)/18कक/आई० डी० प्रार० ए०/79, दिनांक 26 फरवरी, 1979 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को, सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का, जो मैसर्स ब्रेन्ट फोर्ड हनेकिट्स (इंडिया) लि०, कलकत्ता के रूप में जाना है (जिसे हम प्रादेश में इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है), प्रबन्ध उसमें विनि-दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

प्रत. अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निबन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है, जिसके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उभी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18कक के अधीन प्रादेश जारी किये जाने के पूर्व उसे लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1965 के उपबन्ध।	—बे अपवाद, निबन्धन और परिसीमाओं जिनके अधीन रहते हुए स्पष्ट (1) में वर्णित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे।
धारा 166	—इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे। किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियों और तुल्यपत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी। यह छूट कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 (1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।
धारा 169	—इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 210(1)	—इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियों और तुल्यपत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी। यह छूट कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।

धारा 217	—इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।	Provisions of the Companies Act, 1956	SCHEDULE	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
धारा 224	—इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि वेष्टा परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये।	Section 166	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertakings.
धारा 225	—यथोक्त	Section 210 (1)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.	Provisions of this section will shall not apply to the said industrial undertaking.
धारा 293	—इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे। [फा० सं० 5(14)/78 सी० यू० सी०] ब० राय, संयुक्त सचिव	Section 217	Do.	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
		Section 219	Do.	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
		Section 224	[F. No. 5(14)/78-CUC]. B. ROY, Joint Secy.	
		Section 225		
		Section 293		

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th July, 1979

S.O. 422 (E) /18E/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 112(E)/18AA/IDRA/79 dated the 26th February, 1979, issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised a Body of persons to take over the management of Messrs. Brentford Electric (India) Ltd., Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government, hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions, and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under Section 18AA.